

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 दिसम्बर 2015—अग्रहायण 27, शक 1937

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कुछ नहीं.